



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2009/माघ 22, 1930

No. 273]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2009/MAGHA 22, 1930

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2009

का.आ. 450(अ).—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) के खण्ड 3(1) तथा खण्ड 3(4)(एम)(आई) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री विनोद रैना, अध्यक्ष, एरीना काउंसिल ऑफ फेलोज, पता ई-1/193, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से तथा 15-5-2011 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य (केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1-1/2008-टी.एस.-II]

अशोक ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2009

S.O. 450(E).—In exercise of powers conferred by Section 3(1) and Section 3(4)(m)(i) of the All India Council for Technical Education Act, 1987(52 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Vinod Raina, Chairman, Arena Council of Fellows, r/o E 1/193, ARERA Colony, Bhopal-462016, as a Member (Representative of the Central Advisory Board of Education) to the All India Council for Technical Education with effect from the date of publication in the Official Gazette and upto 15-5-2011.

[F.No. 1-1/2008-TS-II]

ASHOK THAKUR, Addl. Secy.